

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 66]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 26 फरवरी 2024—फाल्गुन 7, शक 1945

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2024

क्र. एफ 01-05-05-0010-2023-छब्बीस-1.—दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन दिव्यांगजन के लिए पदों के चिन्हांकन के लिए समिति, एतद्द्वारा, अनुसूची-एक में जेल विभाग की स्थापना में, अनुसूची-दो में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिये आरक्षित पद चिन्हांकित करती है:—

अनुसूची-एक

(1) जेल विभाग



पद की श्रेणी	पद/स्तर का नाम	सोधी मर्ती के कुल स्वीकृत पद	सोधी मर्ती के द्वारा मरे हुए पद	रिक्त पद (3-3a)	निर्वाहजनो के लिए रिक्त पदों की कुल संख्या का कुल योग (6%)	दियागणनों हेतु विन्हाकित पद/मरे पद/रिक्त पदों की जानकारी										रिक्त पदों की पूर्ति का एक लक की जायेगी					
						रिक्त पद	मरे पद	बहरे और कम बुनने वाले (1.5%) विन्हाकित पद	मरे पद	रिक्त पद	रिक्त पद	मरे पद	रिक्त पद	रिक्त पद	मरे पद		रिक्त पद	कुल योग (5+8+11+14)	कुल मरे पद (6+9+12+16)	कुल रिक्त पद (7+10+13+16)	
1	सहायक जेल अधीक्षक	3	3(a) 87	3(b) 34	4	रिक्त पद	रिक्त पद	मरे पद	रिक्त पद	रिक्त पद	रिक्त पद	रिक्त पद	रिक्त पद	मरे पद	रिक्त पद	कुल योग (5+8+11+14)	कुल मरे पद (6+9+12+16)	कुल रिक्त पद (7+10+13+16)	20	जेल सेवा नियमों में इस पद के लिए शारीरिक अर्हता निर्धारित है। अतः इस पद को दियागण से आरक्षण से मुक्त रखे जाने का निर्णय लिया गया।	
द्वितीय	शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक	8	3	5	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
द्वितीय	सैनिक ड्रिल अनुदेशक	1	1	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
तृतीय	प्रहरी	4668	4443	265	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
तृतीय	सहायक ग्रेड-3	31	28	3	2			1	0	1	1	2	0	0	0	0	2	2	1		
तृतीय	शीपलेखक	2	2	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
तृतीय	स्टेनो	3	2	1	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
तृतीय	टाइपिस्ट	1	1	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
तृतीय	कम्प्यूटर आपरेटर	1	0	1	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
तृतीय	मानचित्र	1	0	1	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		

पद की श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भर्ती के कुल स्वीकृत पद	सीधी भर्ती के द्वारा भरे हुये पद	रिक्त पद (3-3b)	निशक्तजनो के लिए विन्हा रिक्त पदों की कुल संख्या का कुल योग (8%)	दिव्यांगजनो हेतु विन्हाकित पद/भरे पद/रिक्त पदों की जानकारी											रिक्त पदों की पूर्ति कर पद की जांकेरी				
						दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5%) विन्हा कित पद	भरे पद	रिक्त पद	बहरे और कम सुनने वाले (1.5%) विन्हा कित पद	भरे पद	रिक्त पद	रिक्त पद	भरे पद	रिक्त पद	ऑटिज्म, रौदिक दिव्यांगता, स्पासिटिक लार्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहु-विन्हाकित (1.5%)	भरे पद		रिक्त पद	कुल योग (5+8+11+14)	कुल भरे पद (6+9+12+16)	कुल रिक्त पद (7+10+13+16)
1	2	3	3(a)	3(b)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
राज्य	कार																				
राज्य	अध्यक्ष	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
राज्य	उपयन्त्री	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
राज्य	कल्याण/परीवीक्षा अधिकारी	10	3	7	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	
राज्य	शिक्षक/सहायक शिक्षक	62	47	15	6	4	3	1	0	0	0	1	3	0	1	0	1	6	6	2	
राज्य	महिला सिलाई एवं कपीदा कारी अनुदेशक	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
राज्य	महिला संगीत शिक्षक	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
राज्य	मेल नर्स	88	60	9	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2	
राज्य	बडई अनुदेशक	10	9	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	
राज्य	डुनाई अनुदेशक	5	4	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
राज्य	सिलाई अनुदेशक	6	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	
राज्य	मेट्रन	5	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																					जल सेवा नियमों में इस पद के लिए शारीरिक अर्हता

पद की श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भर्ती के कुल स्वीकृत पद	सीधी भर्ती के द्वारा नये हुए पद	रिक्त पद (3-3a)	निशकाजनों के लिए रिक्त पदों की कुल संख्या का कुल योग (6%)	दिव्यांगजनों हेतु विहाकित पद/नये पद/रिक्त पदों की जानकारी										रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जायेगी					
						दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5%) रिक्त पद	नरे पद	बहरे और कम सुने वाले (1.5%) रिक्त पद	नरे पद	रिक्त पद	रिक्त पद	रिक्त पद	रिक्त पद	रिक्त पद	रिक्त पद		रिक्त पद	रिक्त पद	रिक्त पद	रिक्त पद	रिक्त पद
1	2	3	3(a)	3(b)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
रुतीय	फोरमेन प्रेस	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	निर्धारित है। अतः इस पद को दिव्यांग आरक्षण से मुक्त रखे जाने का निर्णय लिया गया।
रुतीय	कम्पोजिटर	5	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
रुतीय	मशीनमेन प्रेस	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
रुतीय	पम्प चालक	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
रुतीय	लेब टेक्निसियन	5	4	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
रुतीय	संगीत शिक्षक	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
रुतीय	विजली निस्त्री	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
रुतीय	इक बाईंडर	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
रुतीय	पावरस्पून मशीन मेन	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
रुतीय	पावरस्पून अनुदेशक	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
रुतीय	लोहार	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
रुतीय	अनुदेशक	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
रुतीय	साधुन किर्नाईल अनुदेशक	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1

पद की श्रेणी	पद/सर्वग का नाम	सौथी भर्ती के कुल स्वीकृत पद	सौथी भर्ती के द्वारा भरे हुए पद	रिक्त पद (3-3a)	निशक्तजनों के लिए रिक्त पदों की कुल संख्या का कुल योग (6%)	दिव्यांगजनों हेतु चिह्नकित पद/भरे पद/रिक्त पदों की जानकारी										रिक्त पदों की पूर्ण कम तक की जायेगी					
						वृद्धि प्राप्त और कम वृद्धि (1.5%) चिह्नकित पद	भरे पद	रिक्त पद	बहरे और कम चुनने वाले (1.5%) चिह्नकित पद	भरे पद	रिक्त पद	लोकनीतर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेबल पाली, कुष्ठ रोग मुक्त, बीनापन, एसिड अटैक, पीडित स्कूलर डिस्ट्रिफ्री (1.5%) चिह्नकित पद	रिक्त पद	ऑटिज्म, रौदिक दिव्यांगता, स्पेशिक लॉनिंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहु-विकलांगता (1.5%)	भरे पद		रिक्त पद	कुल योग (5+8+11+14)	कुल भरे पद (6+9+12+15)	कुल रिक्त पद (7+10+13+16)	
1	2	3	3(a)	3(b)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
वृत्तीय	पर्यवेक	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
वृत्तीय	बैड मास्टर	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0
वृत्तीय	फार्मासिस्ट ग्रेड-2	59	54	5	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
वृत्तीय	वाहन चालक	61	18	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
चतुर्थ	ग्रुप	35	33	2	3	2	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	1	2	0
चतुर्थ	गाडीवान	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
चतुर्थ	पंचालक (अप्रशिक्षित)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
चतुर्थ	लेडी अटेंडेंट	2	2	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
चतुर्थ	समयपाल	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

वाहन चालक के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए दिव्यांगजन की सेवाए ली जाना संभव नहीं है। अतः इन पद को दिव्यांग आरक्षण से मुक्त रखे जाने का निर्णय लिया गया।

पद की श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सौथी वर्ती के कुल स्वीकृत पद	सौथी वर्ती के द्वारा भरे हुये पद	रिक्त पद (3-3a)	निशक्तजनो के लिए रिक्त पदों की कुल संख्या का कुल योग (8%)	दिव्यांगजनो हेतु चिन्ताकित पद/भरे पद/रिक्त पदों की जानकारी										रिक्त पदों की पूर्ति कम तक की जावगी					
						भरे पद	रिक्त पद	बहरे और कम चुनने वाले वाले (1.5%) रिक्त पद	भरे पद	रिक्त पद	भरे पद	रिक्त पद	भरे पद	रिक्त पद	भरे पद		रिक्त पद	कुल भरे पद (8+9+12+15)	कुल रिक्त पद (7+10+13+16)		
1	2	3	3(a)	3(b)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
चतुर्थ	सफाईकर्मी	241	207	34	8	0	0	0	2	2	0	1	4	0	5	0	5	8	6	5	
	योग	5499	5041	454	35	8	5	3	9	5	4	9	11	4	9	0	9	35	21	20	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मनोज पुष्प, अपर सचिव.